



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 1381) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2015

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

18 दिसम्बर 2015

सं0 1 स्था० 173/2015-2615/वि०स०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बजट प्रावधान के अंतर्गत निम्नांकित वित्तीय मामले के निष्पादनार्थ सचिव, बिहार विधान-सभा को शक्ति प्रत्यायोजित करने की कृपा की है :-

1. गैर योजना मद में आवंटन की स्वीकृति ।
2. गैर योजना मद में आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर ।
3. कार्यालय व्यय स्वीकृत करने की शक्ति ।
4. भविष्य निधि से अस्थायी / स्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं इससे भिन्न अन्य अग्रिम की स्वीकृति ।
5. पेंशन / उपादान / भविष्य निधि की अंतिम निकासी एवं अव्यवहृत अवकाश के बदले नगदीकरण की स्वीकृति।
6. परिवहन भत्ता की स्वीकृति ।
7. विभागीय वाहनों की मरम्मत की स्वीकृति ।

8. अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण (महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात्) ।

सभा सचिव इस मामले में पूर्ण जिम्मेवारी (Accountability) के साथ वित्तीय अनुशासन का सख्ती से अनुपालन करेंगे । किसी संशय या भ्रम की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय से आवश्यक निदेश प्राप्त करेंगे ।

उपर्युक्त वित्तीय मामलों का निष्पादन बिहार विधान-सभा में प्राधिकृत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से इस प्रत्यायोजन संबंधी आदेश को कभी भी विखंडित / परिवर्तित किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1381-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>